



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 875) पटना, बुधवार, 22 अक्टूबर 2014

सं0 3ए-11-वे0नि0-04/2014—9728-वि0

वित्त विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2014

विषय:—विधि विभाग के अंतर्गत बिहार विधि सेवा (प्रीमियर सेवा) के अधीन सृजित विभिन्न राजपत्रित पदों के वेतनमान के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का गठन किया गया है ।

2. इस क्रम में उक्त नीति की कंडिका 11 (A) (B) के अधीन बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का गठन अधिसूचना सं0 2981/जे0, दिनांक 19/05/2014 द्वारा किया गया है । सेवाशर्त नियमावली में विधायी कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालयीन व्यवस्था के तहत विधि सेवा संवर्ग के लिए निम्नलिखित पद सोपान प्रीमियर सेवा के रूप में विहित किया गया है-

- (i) सहायक विधि पदाधिकारी
- (ii) उप विधि पदाधिकारी
- (iii) अपर विधि पदाधिकारी
- (iv) विधि पदाधिकारी

3. इन पदों के लिए सुसंगत वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 19/05/2014 के प्रभाव से बिहार विधि सेवा (प्रीमियर सेवा) के लिए निम्नलिखित पदों का वेतनमान (उनके सामने अंकित) स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान
1.	विधि पदाधिकारी	37400-67000/- +ग्रेड-पे पी०बी०-4+8700/-
2.	अपर विधि पदाधिकारी	15600-39100/- +ग्रेड-पे पी०बी०-3+7600/-
3.	उप विधि पदाधिकारी	15600-39100/- +ग्रेड-पे पी०बी०-3+6600/-
4.	सहायक विधि पदाधिकारी	9300-34800/- +ग्रेड-पे पी०बी०-2+5400/- एवं चार वर्ष के बाद पी०बी०-3+5400/-

5. इन पदों के लिए उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प सं० 630, दिनांक 21/01/2010 के आलोक में किया जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 875-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>